



सीमा सुरक्षा बल

ब्लॉक नं.10, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

संदर्भ संख्या - 15/2018

दिनांक 25 अप्रैल 2018

प्रेस विज्ञप्ति

बीएसएफ 'जांबाज' टीम ने फिर रचा इतिहास : बनाये दो नये रिकॉर्ड

छावला, नई दिल्ली, दिनांक २५- ०४-२०१८।

सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल टीम (पुरुष वर्ग), जिसे 'जांबाज' के नाम से जाना जाता है और सन 2015 की गणतंत्र दिवस परेड पर जिसके प्रदर्शन से अभिभूत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा तक जिसे 'थम्ब्स अप' कर चुके हैं, अपने साहसिक एवं हैरतअंगेज कारनामों से निरंतर सुर्खियों में रहा करती है।

2. यह टीम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस टीम के दो सदस्यों ने मोटर साइकिल चालन में दो अलग-अलग कारनामों से रिकॉर्ड कायम किया है और कीर्तिमानों की अपनी समृद्ध विरासत में उपलब्धियों के नए सितारे जड़े हैं।

3. छावला के ग्राउंड में दिनांक 2५-०४-२०१८ को ये दोनों कीर्तिमान तब बने जब सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह और मुख्य आरक्षक दुर्वेश बाबू ने 350 सी.सी. की रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों पर अविश्वसनीय से जान पड़ने वाले कारनामों को अंजाम दिया। इस क्रम में अवधेश ने मोटरसाइकिल पर लगे 16 फीट 5 इंच ऊंचे पोल पर खड़े हो 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड के रिकॉर्ड समय तक, जबकि मुख्य आरक्षक दुर्वेश बाबू ने भी मोटरसाइकिल से लगी इतनी ही ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड तक के रिकॉर्ड समय तक मोटरसाइकिल चलाई। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने भारतीय सेना के 9 घंटे 4 मिनट 5 सेकंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है।

4. गौरतलब है कि 'जांबाज' टीम इससे पहले भी कई रिकॉर्ड कायम कर चुकी है जिसमें दिनांक १६ अप्रैल २०१८ को मोटरसाइकिल की गति के विपरीत खड़े होकर 4 घंटे 17 मिनट में तय की गई 106.01 किलोमीटर की दूरी तथा मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर 2 घंटे 21 मिनट 17 सेकंड में तय की गई 80.5 किलोमीटर की दूरी के रिकॉर्ड सहित बीते दिनों के 3

रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों पर 36 जवानों को बिठाकर मात्र 55.52 सेकंड में तय की गई 1000 मीटर की दूरी तथा एक मोटरसाइकिल पर 40 जवानों को बिठाकर 325 मीटर की दूरी 48.11 सेकंड में तय करना जैसे रिकॉर्ड प्रमुख हैं। इनमें से कई 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज हैं।

5. विदित हो कि यह टीम सन 1990 में अस्तित्व में आई थी। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में गठित यह टीम केंद्रीय यांत्रिक परिवहन विद्यालय, टेकनपुर, ग्वालियर के कमान अधिकारी की देखरेख में अभ्यासरत रहती है। वर्तमान समय में श्री सतीश कुमार मिश्रा, द्वितीय कमान अधिकारी के सुयोग्य नेतृत्व में यह उन नए मिथकों की सर्जना कर रही है जो सीमा सुरक्षा बल की प्रतिष्ठा के वायस हैं।

Follow us on

Facebook : @OfficialPageBSF
Twitter : @BSF_India
Instagram : @bsf_india
youtube : @BSF India

जन संपर्क अधिकारी

सीमा सुरक्षा बल

Also visit us in <http://www.bsf.nic.in/>

